



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2013/माघ 4, 1934

No. 244]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2013/MAGHA 4, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2013

का.आ. 265(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि रेवाडी (हरियाणा) से कानपुर (उत्तर प्रदेश) तक पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री भगवत सागर ओझा, सक्षम प्राधिकारी, रेवाडी-कानपुर पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 123/788, जी.-1, प्लॉट नं. 52-टी./15 फैक्ट्री एरिया, फजलगंज, कानपुर (उत्तर प्रदेश) पिन-208012 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

तहसील : रसूलाबाद		जिला : कानपुर देहात		राज्य : उत्तर प्रदेश		
क्रम	गाँव का नाम	खसरा सं.	उप खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मी.
1	2	4	5	6	7	8
1	नार खुर्द	413		00	03	81
		462		00	00	35
		461		00	15	13
		465		00	03	85
		456		00	14	67
		455		00	00	96
		446		00	06	41
		436		00	09	88
		437		00	06	49
		435		00	10	30
		434		00	09	78
		432		00	00	20
		433		00	10	26
		420		00	17	06
		419		00	19	26
		418		00	21	81
		417		00	05	12
		317		00	07	68
		319		00	03	97
		318		00	10	57
		320		00	09	07
		323		00	08	46
		337		00	00	20
		340		00	23	74
		339		00	13	51
		353		00	00	48

1	2	4	5	6	7	8
	नार खुर्द (जारी...)	347		00	00	49
		346		00	09	73
		348		00	17	64
		408		00	00	64
		406		00	06	58
		407		00	02	03
		392		00	07	70
		393		00	01	54
		394		00	13	80
		877		00	00	20
		876		00	01	63
		879		00	15	06
		880		00	08	39
		881		00	07	55
		892		00	12	51
		893		00	00	27
		896		00	01	07
		897		00	16	41
		921		00	01	92
		1386		00	00	56
		1394		00	00	87
		1395		00	02	79
		1393		00	02	13
		1387		00	12	37
		1388		00	00	54
		1389		00	14	53
		1404		00	00	10
		1408		00	00	10
		1392		00	09	01
		1433		00	01	28
		1450		00	14	62

1	2	4	5	6	7	8
	नार खुद (जारी...)	1494		00	00	10
		1484		00	07	85
		1469		00	08	57
		1493		00	03	20
		1492		00	03	85
		1477		00	03	54
		1478		00	06	25
		1489		00	05	42
		1479		00	00	45
		1482		00	03	39
		1483		00	06	70
		1488		00	09	77
		1485		00	00	64
		1504		00	00	96
		1520		00	23	92
		1521		00	00	72
		1524		00	26	99
		1522		00	00	65
		1523		00	02	05
		1525		00	01	15
		891		00	01	07
2	नारखास	338		00	01	80
		336		00	01	89
		234		00	06	11
		235		00	06	09
		236		00	17	64
		231		00	00	27
		237		00	21	98
		240		00	18	37
		241		00	00	74
		250		00	21	17

1	2	4	5	6	7	8
	नारस्रास (जारी...)	246		00	07	38
		247		00	27	05
		256		00	00	75
		257		00	26	82
		258		00	00	77
		259		00	00	73
		260		00	13	47
		199		00	19	53
		266		00	00	74
		267		00	03	94
		268		00	09	03
		269		00	10	57
		270		00	02	52
		271		00	02	53
		273		00	21	29
		274		00	01	05
		189		00	00	45
		188		00	25	57
3	भवनपुर	440		00	25	20
		434		00	03	44
		433		00	04	05
		432		00	10	25
		430		00	11	59
		429		00	04	68
		431		00	00	50
		428		00	08	51
		419		00	09	75
		418		00	15	12
		417		00	11	88
		416		00	00	73

369 GF/13-2

1	2	4	5	6	7	8
	भवनपुर (जारी...)	415		00	57	12
		618		00	00	30
		407		00	04	62
		406		00	02	92
		406/826		00	02	34
		404/827		00	02	51
		408		00	00	30
		405		00	00	10
		404		00	39	60
		392		00	02	16
		391		00	13	32
		389		00	17	28
		383		00	00	72
		380		00	05	04
		379		00	09	90
		378		00	15	84
		764		00	01	45
		333		00	19	20
		767		00	02	77
		329		00	04	56
		769		00	00	20
		770		00	04	57
		327		00	11	52
		374		00	00	72
4	मनकी	65		00	01	55
		64		00	00	27
		62		00	16	68
		70		00	00	72
		71		00	00	27
		74		00	27	24
		236		00	00	73

1	2	4	5	6	7	8
	मनकी (जारी...)	258		00	52	05
		260		00	24	53
		261		00	00	44
		60		00	00	10
		259		00	00	10
		76		00	05	13
		73		00	00	20
5	सलेमपुर महेरा	1063		00	08	66
		1064		00	00	35
		1062		00	00	27
		1059		00	11	87
		1065		00	11	35
		1066		00	00	35
		746		00	05	76
6	कठिका	98		00	03	85
		93		00	10	53
		92		00	08	73
		88		00	06	56
		89		00	00	27
		91		00	06	59
		95		00	10	08
		97		00	07	08
		127		00	13	47
		107		00	18	05
		126		00	00	10
		108		00	20	21
		109		00	01	28
		90		00	00	30
		94		00	00	10

1	2	4	5	6	7	8
7	मलगाव	83		00	01	60
		72		00	20	85
		323		00	00	27
		73		00	00	27
		74		00	12	03
		75		00	07	32
		76		00	01	65
		81		00	04	04
		80		00	00	45
		79		00	29	08
		98		00	04	53
		227		00	28	22
		153		00	00	48
		150		00	14	75
		142		00	00	10
		141		00	29	08
		143		00	02	72
		140		00	00	48
		139		00	06	34
		137		00	03	67
		136		00	00	58
		138		00	04	65
		135		00	14	29
		332		00	00	72
		374		00	02	24
		373		00	00	67
		372		00	00	30
		375		00	09	45
		376		00	03	97
		377		00	03	94
		380		00	04	55



1	2	4	5	6	7	8
	मलगान्व (जारी...)	381		00	27	16
		391		00	00	84
		392		00	27	84
		652		00	19	20
		702		00	01	60
		701		00	16	23
		700		00	11	39
		697		00	05	63
		696		00	04	31
		695		00	00	20
		693		00	14	88
		692		00	08	02
		678		00	01	92
		881		00	16	05
		864		00	01	95
		871		00	11	83
		870		00	04	17
		867		00	15	74
		859		00	00	72
		858		00	09	29
		857		00	01	04
		932		00	00	66
		1253		00	00	64
		1265		00	06	22
		1266		00	01	29
		1277		00	04	80
		1278		00	07	88
		1282		00	08	52
		866		00	00	20
		1276		00	12	11

1	2	4	5	6	7	8
8	केशीपुर	88		00	12	83
		89		00	06	33
		90		00	08	39
		91		00	05	79
		92		00	03	22
		93		00	19	36
		94		00	13	10
		95		00	06	88
		100		00	01	78
		101		00	01	56
		102		00	08	02
		150		00	00	72
		152		00	38	42
		156		00	00	72
		157		00	48	11
9	गाऊपुर	148		00	00	85
		154		00	00	20
		155		00	11	54
		156		00	17	96
		157		00	04	36
		158		00	07	07
		177		00	00	27
		184		00	00	64
		186		00	03	25
		142		00	04	42
		187		00	00	83
		188		00	16	04
		193		00	10	80
		194		00	26	61
		647		00	00	72

1	2	4	5	6	7	8
	गाऊपुर (जारी...)	644		00	13	44
		643		00	13	54
		652		00	18	14
		653		00	07	34
		642		00	00	20
		661		00	00	73
		595		00	08	09
		554		00	12	01
		551		00	08	55
		153		00	00	25
		552		00	02	66
		550		00	06	44
		519		00	00	45
		565		00	07	52
		566		00	00	48
		567		00	12	36
		518		00	08	65
		517		00	09	14
		515		00	06	26
		514		00	15	71
		513		00	28	42
		501		00	07	88
		500		00	09	18
		499		00	19	54
		498		00	14	29
		497		00	01	28
		476		00	01	22
		496		00	15	49
		494		00	09	16
		491		00	02	64
		490		00	00	72

1	2	4	5	6	7	8
	गाऊपुर (जारी...)	489		00	08	58
		546		00	00	57
10	देवरा	168		00	05	13
		169		00	11	97
		170		00	13	83
		178		00	08	48
		177		00	08	55
		179		00	00	54
		180		00	06	89
		195		00	22	26
		186		00	07	13
		187		00	14	37
11	मुलही	207		00	20	53
		204		00	00	20
		205		00	08	71
		206		00	08	30
		217		00	12	63
		218		00	12	09
		220		00	12	31
		222		00	14	75
		335		00	00	45
		201		00	03	74
		35		00	05	65
		50		00	00	84
		58		00	05	78
		59		00	05	82
		60		00	05	88
		336		00	00	20
		61		00	06	35

1	2	4	5	6	7	8
	मुलही (जारी...)	62		00	08	02
		63		00	06	42
		64		00	19	88
		65		00	12	19
		76		00	15	68
		75		00	01	71
		77		00	06	42
		81		00	02	73
		82		00	06	42
		83		00	09	81
		84		00	11	22
		96		00	00	54
		97		00	24	79
		98		00	13	49
		99		00	00	55
		125		00	17	89
		124		00	02	67
		128		00	24	25
		137		00	13	71
		135		00	00	64
		136		00	07	81
		152		00	20	32
		153		00	12	43
		156		00	00	82
		159		00	21	27
		166		00	06	78
		167		00	00	55
		169		00	06	11
		176		00	13	77
		177		00	29	59
		178		00	00	20

369 GII/13-4

1	2	4	5	6	7	8
	मुलही (जारी...)	181		00	01	26
		183		00	28	16
		170		00	00	20
		126		00	00	20

[फा. सं. आर-31015/32/2012-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2013

**S.O. 265(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Rewari (Haryana) to Kanpur (Uttar Pradesh), a pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Bhagwat Sagar Ojha, Competent Authority, Rewari-Kanpur product Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, 123/788, G-1, Plot No. 52-T/15, Factory Area, Fazalganj, Kanpur (Uttar Pradesh) Pin - 208012.

## SCHEDULE

Tehsil : Rasulabad		District : Kanpur Dehat		State : Uttar Pradesh		
Sr. No.	Name of Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
1	NAR KHURD	413		00	03	81
		462		00	00	35
		461		00	15	13
		465		00	03	85
		456		00	14	67
		455		00	00	96
		446		00	06	41
		436		00	09	88
		437		00	06	49
		435		00	10	30
		434		00	09	78
		432		00	00	20
		433		00	10	26
		420		00	17	06
		419		00	19	26
		418		00	21	21
		417		00	05	12
		317		00	07	68
		319		00	03	97
		318		00	10	57
		320		00	09	07
		323		00	08	46
		337		00	00	20
		340		00	23	74
		339		00	13	51
		353		00	00	48

1	2	3	4	5	6	7
	NAR KHURD (Contd...)	347		00	00	49
		346		00	09	73
		348		00	17	64
		408		00	00	64
		406		00	06	58
		407		00	02	03
		392		00	07	70
		393		00	01	54
		394		00	13	80
		877		00	00	20
		876		00	01	63
		879		00	15	06
		880		00	08	39
		881		00	07	55
		892		00	12	51
		893		00	00	27
		896		00	01	07
		897		00	16	41
		921		00	01	92
		1386		00	00	56
		1394		00	00	87
		1395		00	02	79
		1393		00	02	13
		1387		00	12	37
		1388		00	00	54
		1389		00	14	53
		1404		00	00	10
		1408		00	00	10
		1392		00	09	01
		1433		00	01	28
		1450		00	14	62



1	2	3	4	5	6	7
	NAR KHURD (Contd...)	1494		00	00	10
		1484		00	07	85
		1469		00	08	57
		1493		00	03	20
		1492		00	03	85
		1477		00	03	54
		1478		00	06	25
		1489		00	05	42
		1479		00	00	45
		1482		00	03	39
		1483		00	06	70
		1488		00	09	77
		1485		00	00	64
		1504		00	00	96
		1520		00	23	92
		1521		00	00	72
		1524		00	26	99
		1522		00	00	65
		1523		00	02	05
		1525		00	01	15
		891		00	01	07
2	NAR KHAS	338		00	01	80
		336		00	01	89
		234		00	06	11
		235		00	06	09
		236		00	17	64
		231		00	00	27
		237		00	21	98
		240		00	18	37
		241		00	00	74
		250		00	21	17

1	2	3	4	5	6	7
	NAR KHAS(Contd...)	246		00	07	38
		247		00	27	05
		256		00	00	75
		257		00	26	82
		258		00	00	77
		259		00	00	73
		260		00	13	47
		199		00	19	53
		266		00	00	74
		267		00	03	94
		268		00	09	03
		269		00	10	57
		270		00	02	52
		271		00	02	53
		273		00	21	29
		274		00	01	05
		189		00	00	45
		188		00	25	57
3	BHAWAN PUR	440		00	25	20
		434		00	03	44
		433		00	04	05
		432		00	10	25
		430		00	11	59
		429		00	04	68
		431		00	00	50
		428		00	08	51
		419		00	09	75
		418		00	15	12
		417		00	11	88
		416		00	00	73

1	2	3	4	5	6	7
	BHAWAN PUR(Contd...)	415		00	57	12
		618		00	00	30
		407		00	04	62
		406		00	02	92
		406/826		00	02	34
		404/827		00	02	51
		408		00	00	30
		405		00	00	10
		404		00	39	60
		392		00	02	16
		391		00	13	32
		389		00	17	28
		383		00	00	72
		380		00	05	04
		379		00	09	90
		378		00	15	84
		764		00	01	45
		333		00	19	20
		767		00	02	77
		329		00	04	56
		769		00	00	20
		770		00	04	57
		327		00	11	52
		374		00	00	72
4	MANKI	65		00	01	55
		64		00	00	27
		62		00	16	68
		70		00	00	72
		71		00	00	27
		74		00	27	24
		236		00	00	73

1	2	3	4	5	6	7
	MANKI (Contd...)	258		00	52	05
		260		00	24	53
		261		00	00	44
		60		00	00	10
		259		00	00	10
		76		00	05	13
		73		00	00	20
5	SALEMPUR MAHERA	1063		00	08	66
		1064		00	00	35
		1062		00	00	27
		1059		00	11	87
		1065		00	11	35
		1066		00	00	35
		746		00	05	76
6	KATHIKA	98		00	03	85
		93		00	10	53
		92		00	08	73
		88		00	06	56
		89		00	00	27
		91		00	06	59
		95		00	10	08
		97		00	07	08
		127		00	13	47
		107		00	18	05
		126		00	00	10
		108		00	20	21
		109		00	01	28
		90		00	00	30
		94		00	00	10

1	2	3	4	5	6	7
7	MALGAON	83		00	01	60
		72		00	20	85
		323		00	00	27
		73		00	00	27
		74		00	12	03
		75		00	07	32
		76		00	01	65
		81		00	04	04
		80		00	00	45
		79		00	29	08
		98		00	04	53
		227		00	28	22
		153		00	00	48
		150		00	14	75
		142		00	00	10
		141		00	29	08
		143		00	02	72
		140		00	00	48
		139		00	06	34
		137		00	03	67
		136		00	00	58
		138		00	04	65
		135		00	14	29
		332		00	00	72
		374		00	02	24
		373		00	00	67
		372		00	00	30
		375		00	09	45
		376		00	03	97
		377		00	03	94
		380		00	04	55

369 GI/13-6

1	2	3	4	5	6	7
	MALGAON(Contd...)	381		00	27	16
		391		00	00	84
		392		00	27	84
		652		00	19	20
		702		00	01	60
		701		00	16	23
		700		00	11	39
		697		00	05	63
		696		00	04	31
		695		00	00	20
		693		00	14	88
		692		00	08	02
		678		00	01	92
		881		00	16	05
		864		00	01	95
		871		00	11	83
		870		00	04	17
		867		00	15	74
		859		00	00	72
		858		00	09	29
		857		00	01	04
		932		00	00	66
		1253		00	00	64
		1265		00	06	22
		1266		00	01	29
		1277		00	04	80
		1278		00	07	88
		1282		00	08	52
		866		00	00	20
		1276		00	12	11

1	2	3	4	5	6	7
8	KESHIPUR	88		00	12	83
		89		00	06	33
		90		00	08	39
		91		00	05	79
		92		00	03	22
		93		00	19	36
		94		00	13	10
		95		00	06	88
		100		00	01	78
		101		00	01	56
		102		00	08	02
		150		00	00	72
		152		00	38	42
		156		00	00	72
		157		00	48	11
9	GAUPUR	148		00	00	85
		154		00	00	20
		155		00	11	54
		156		00	17	96
		157		00	04	36
		158		00	07	07
		177		00	00	27
		184		00	00	64
		186		00	03	25
		142		00	04	42
		187		00	00	83
		188		00	16	04
		193		00	10	80
		194		00	26	61
		647		00	00	72

369 GI/13-7

1	2	3	4	5	6	7
	GAUPUR(Contd...)	644		00	13	44
		643		00	13	54
		652		00	18	14
		653		00	07	34
		642		00	00	20
		661		00	00	73
		595		00	08	09
		554		00	12	01
		551		00	08	55
		153		00	00	25
		552		00	02	66
		550		00	06	44
		519		00	00	45
		565		00	07	52
		566		00	00	48
		567		00	12	36
		518		00	08	65
		517		00	09	14
		515		00	06	26
		514		00	15	71
		513		00	28	42
		501		00	07	88
		500		00	09	18
		499		00	19	54
		498		00	14	29
		497		00	01	28
		476		00	01	22
		496		00	15	49
		494		00	09	16
		491		00	02	64
		490		00	00	72



1	2	3	4	5	6	7
	GAUPUR(Contd...)	489		00	08	58
		546		00	00	57
10.	DEVRA	168		00	05	13
		169		00	11	97
		170		00	13	83
		178		00	08	48
		177		00	08	55
		179		00	00	54
		180		00	06	89
		195		00	22	26
		186		00	07	13
		187		00	14	37
11.	MULAH	207		00	20	53
		204		00	00	20
		205		00	08	71
		206		00	08	30
		217		00	12	63
		218		00	12	09
		220		00	12	31
		222		00	14	75
		335		00	00	45
		201		00	03	74
		35		00	05	65
		50		00	00	84
		58		00	05	78
		59		00	05	82
		60		00	05	88
		336		00	00	20
		61		00	06	35
		62		00	08	02
		63		00	06	42
		64		00	19	88
		65		00	12	19
		76		00	15	68
		75		00	01	71

1	2	3	4	5	6	7
	MULAH (Contd...)	77		00	06	42
		81		00	02	73
		82		00	06	42
		83		00	09	81
		84		00	11	22
		96		00	00	54
		97		00	24	79
		98		00	13	49
		99		00	00	55
		125		00	17	89
		124		00	02	67
		128		00	24	25
		137		00	13	71
		135		00	00	64
		136		00	07	81
		152		00	20	32
		153		00	12	43
		156		00	00	82
		159		00	21	27
		166		00	06	78
		167		00	00	55
		169		00	06	11
		176		00	13	77
		177		00	29	59
		178		00	00	20
		181		00	01	26
		183		00	28	16
		170		00	00	20
		126		00	00	20

[F.No. R-31015/32/2012-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.